

Lev

Chapter 6

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

וַיִּדְבֹר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר: 1
और-बोला यहोवा से मूसा कहते-हुए
[H1696](#) [H3068](#) [H0413](#) [H4872](#) [H0559](#)

यहोवा ने मूसा से कहा,

וְנֶפֶשׁ כִּי תֹאֲחָא וּמַעֲלָה וּמַעֲלָה מֵעַל בֵּיהוָה וְקִחַשׁ בְּעֵמִיתוֹ 2
प्राण जब पाप-करे और-विश्वासघात-करे और-विश्वासघात विश्वासघात यहीवा-के-विरुद्ध और-झूठ-बोले और-झूठ-बोले पड़ोसी-अपने-से पड़ोसी-अपने-से
[H5315](#) [H2398](#) [H4603](#) [H4604](#) [H3068](#) [H3584](#) [H5997](#)
בְּקַרְוֹן יָד בְּתַשׁוּמַת אֹי-אִוּ בְּנֹל אוּ יָד בְּתַשׁוּמַת אֹי-אִוּ עֵמִיתוֹ: 3
धरोहर-में हाथ जमा-में या लूट-में या अत्याचार-किया को पड़ोसी-अपने-से पड़ोसी-अपने-से
[H6487](#) [H8667](#) [H3027](#) [H1498](#) [H6231](#) [H0853](#) [H5997](#)

“कोई व्यक्ति यहोवा के प्रति इनमें से किसी एक को करके अपराध कर सकता है: वह किसी अन्य के लिए जिसकी वह देखभाल कर रहा हो, उसे कुछ होने के बारे में झूठ बोल सकता है, अथवा कोई व्यक्ति अपने दिए वचन के बारे में झूठ बोल सकता है, अथवा कोई व्यक्ति कुछ चुरा सकता है, या कोई व्यक्ति किसी को ठग सकता है,

אִוּ-מִצָּא אֲבֵרָה וְקִחַשׁ בָּהּ וְעַל-שִׁבְעֵי וְעַל-אַחַת מִכָּל 3
या पाया खोई-हुई-वस्तु और-झूठ-बोला उस-में और-शपथ-खाई पर पर सब-से एक पर
[H4672](#) [H0009](#) [H3584](#) [H7650](#) [H8267](#) [H0259](#) [H3605](#)
אֲשֶׁר-יַעֲשֶׂה מְנַשָּׂא לְקַטֵּא בְּהִנָּה: 4
जो करे मनुष्य पाप-करने-के-लिए उन-में
[H0120](#) [H2398](#) [H2007](#)

अथवा किसी को कोई खोई चीज मिले और तब वह उसके विषय में झूठ बोल सकता है या कोई व्यक्ति कुछ करने का वचन दे सकता है और तब अपने दिये गे वचन को पूरा नहीं करता है, अथवा कोई कुछ अन्य बुरा कर सकता है।

וְהִיָּה כִּי-יִקְטָא וְאָשָׁם וְהָשִׁיב אֶת-הַנֹּלָה אֲשֶׁר נָלָה אוּ יָא אֶת-וְהִיָּה 4
और-ही जब पाप-करे और-दोषी-हो और-लौटाए और-लौटाए लूट लूट जो या को
[H1961](#) [H2398](#) [H0816](#) [H7725](#) [H0853](#) [H1500](#) [H1497](#) [H0853](#)
הָעֵשָׂק אֲשֶׁר עֲשָׂק אוּ אֶת-הַפְּקֹדִין אֲשֶׁר הַפְּקֹדִין אֶת-אוּ אֶת-אוּ 5
अत्याचार जो अत्याचार-किया या को या को या उस-के-पास रखवाया-गया जो धरोहर को या को
[H6233](#) [H6231](#) [H0853](#) [H6487](#) [H6485](#) [H0854](#) [H0853](#)
הָאֲבֵרָה אֲשֶׁר מִצָּא: 6
खोई-हुई-वस्तु जो पाई
[H0009](#) [H4672](#)

यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी को करता है तो वह पाप करने का दोषी है। उस व्यक्ति को जो कुछ उसने चुराया हो या ठगकर जो कुछ लिया हो या किसी व्यक्ति के कहने से उसकी धरोहर के रूप में जो रखा हो, या किसी का खोया हुआ पाकर उसके बारे में झूठ बोला हो

אוּ מִכָּל אִוּ-יִשְׁבַּע עָלָיו וְיִשְׁבַּע אֲשֶׁר-מִכָּל אוּ וְהַמְשִׁתִּי 5
या सब-से या शपथ-खाए उस-पर झूठ-के-लिए और-चुकाए उसे मूल-में-उसके और-पाँचवाँ-उसका और-जिस-पर सब-से या
[H3605](#) [H7650](#) [H8267](#) [H0853](#) [H2549](#)
יָסַף עָלָיו לְאֲשֶׁר הוּא לֹו יִתְנֶנּוּ בְּיוֹם אֲשַׁמְתוֹ: 7
जोड़े उस-पर जिसका वह उसके-लिए दे-उसे दिन-में दोष-अपने
[H3254](#) [H1931](#) [H5414](#) [H3117](#) [H0819](#)

या जिस किसी के बारे में झूठा वचन दिया हो, वह उसे लौटाना चाहिए। उसे पूरा मूल्य चुकाना चाहिए और तब उसे वस्तु के मूल्य का पाँचवाँ हिस्सा अतिरिक्त देना चाहिए। उसे असली मालिक को धन देना चाहिए। उसे यह उसी दिन करना चाहिए जि दिन वह दोषबलि लाए।

6 וְאֵת־ אֲשָׁמוֹ יָבִיא לַיהוָה אֵיל תְּמִים מִן־ הַצֹּאֵן בְּעֶרְבָהּ
 और-को दोषबलि-अपनी लाए यहोवा-को में-से निदोष में-से भेड़-बकरियों मूल्यांकन-तेरे-में
[H0853](#) [H0817](#) [H0935](#) [H3068](#) [H8549](#) [H6629](#) [H6187](#)

לְאֲשָׁם לְאֵל־ הַכֹּהֵן :
 दोषबलि-के-लिए पर याजक
[H0817](#) [H0413](#) [H3548](#)

उस व्यक्ति को दोषबलि याजक के पास लाना चाहे। यह रेवड़ से एक मेढ़ा होना चाहिए। मेढ़े में कोई दोष नहीं होना चाहिए। यह उसी मूल्य का होना चाहिए जो याजक कहे। यह यहोवा को दी गी दोषबलि होगी।

7 וְכִפֹּר עֲלָיו הַכֹּהֵן לְפָנָי יְהוָה וְנִסְלַח לוֹ עַל־ אַחַת מִכָּל אֲשֶׁר־
 और-प्रायश्चित-करे उस-पर याजक सामने यहोवा-के और-क्षमा-ही उसे पर एक सब-से जो
[H0817](#) [H3548](#) [H6440](#) [H3068](#) [H5545](#) [H0259](#) [H3605](#)

יַעֲשֶׂה לְאֲשָׁמָה בָּהּ : פ
 करे दोष-के-लिए उस-में —
[H0819](#)

तब याजक यहोवा के पास जाएगा और उस व्यक्ति के उन पापों के लिए भुगतान करेगा जिनका वह अपराधी है, और यहोवा उस व्यक्ति को उन पापों के लिए क्षमा करेगा जिन्होंने उसे अपराधी बनाया।”

8 וַיִּדְבֹר וַיְהוּה אֶל־ מִשָּׁה לְאִמֹר :
 और-बोला यहोवा से मूसा कहते-हुए
[H1696](#) [H3068](#) [H0413](#) [H4872](#) [H0559](#)

यहोवा ने मूसा से कहा,

9 צֹו אֵת־ אֶהְרֹן וְאֵת־ בְּנָיו לְאִמֹר זֹאת תּוֹרַת הָעֹלָה הוּא הָעֹלָה עַל־
 आज्ञा-दे को हारून और-को पुत्रों-उसके कहते-हुए यह व्यवस्था होमबलि-की होमबलि यह होमबलि पर
[H6680](#) [H0853](#) [H0175](#) [H0853](#) [H0853](#) [H0559](#) [H2063](#) [H8451](#) [H1931](#)

מוֹקְדָה עַל־ תְּמוֹנֵיכָה כָּל־ הַלַּיְלָה עַד־ תִּבְקֹר וְאִשׁ תְּמוֹנֵיכָה תִּקְרַךְ בּוֹ :
 जलती-जगह पर वेदी वेदी-की और-आग सुबह तक रात होमबलि सब वेदी जलती-जगह
[H4169](#) [H4196](#) [H3605](#) [H3915](#) [H5704](#) [H1242](#) [H0784](#) [H4196](#) [H3344](#)

“हारून और उसके पुत्रों को यह आदेश दो: यह होमबलि का नियम है। होमबलि को वेदी के अग्नि कुण्ड में पूरी रात सवेरा होने तक रखना चाहिए। वेदी की आग को वेदी पर जलती रहनी चाहिए।

10 וְלִבֶּשׁ הַכֹּהֵן מְרוֹ וְכִרְיָתוֹ וְהָרִים אֵת־ וְלִבֶּשׁ בְּדָ יְלִבָּשׁ עַל־ בְּשָׂרוֹ וְהָרִים אֵת־
 और-पहने याजक वस्त्र-अपना सन और-जांघिया सन और-पहने पहने सन-की और-जांघिया पर मांस-अपने और-उठाए को
[H3847](#) [H3548](#) [H4055](#) [H0906](#) [H4370](#) [H0906](#) [H3847](#) [H1320](#) [H0853](#)

הַרְשֵׁן אֲשֶׁר תֹּאכַל הָאֵשׁ אֵת־ הָעֹלָה עַל־ תְּמוֹנֵיכָה וְשָׂמוּ אֶצְלָי וְהָרִים אֵת־
 रख जो खाए को आग होमबलि पर वेदी वेदी-के
[H1880](#) [H0398](#) [H0784](#) [H0853](#) [H4196](#) [H0681](#) [H4196](#)

याजक को सन के उत्तम रेशों के बने वस्त्र पहनने चाहिए। उसे अपने शरीर से चिपका सन का अर्न्तवस्त्र पहनना चाहिए। तब याजक को वेदी पर होमबलि पर जलने के बाद बची हुई राख को उठाना चाहिए। याजक को वेदी की एक ओर राख को रखना चाहिए।

11 וּפָשַׁט וְהָרִים אֵת־ בְּגָדָיו וְלִבֶּשׁ בְּגָדָיו אֲחֵרִים וְהוֹצִיא אֶת־ הַרְשֵׁן אֲשֶׁר תֹּאכַל הָאֵשׁ אֵת־
 और-उतारे को वस्त्रों-अपने और-पहने वस्त्र और-निकाले दूसरे को और-उठाए पर बाहर
[H6584](#) [H0853](#) [H3847](#) [H0312](#) [H3318](#) [H0853](#) [H0413](#) [H2351](#)

לְמַחְנָה אֶל־ מְקוֹם טָהוֹר :
 छावनी-के पर स्थान शुद्ध
[H4264](#) [H0413](#) [H4725](#) [H2889](#)

तब याजक को अपने वस्त्रों को उतारना चाहिए और अन्य वस्त्र पहनने चाहिए। तब उसे डेरे से बाहर स्वच्छ स्थान पर राख ले जानी चाहिए।

עֲצִים	הַכֹּהֵן	עָלֶיהָ	וּבֵיעַר	תִּכְבְּהָ	לֹא	בּוֹ	תִּזְקַד-	הַמִּזְבֵּחַ	עַל-	וְהָאֵשׁ	12
लकड़ियां	याजक	उस-पर	और-जलाए	बुझें	नहीं	उस-पर	जलती-रहे	वेदी	पर	और-आग	
H6086	H3548			H3518	H3808		H3344	H4196		H0784	

הַשְּׁלֵמִים:	חֲלָבֵי	עָלֶיהָ	וְהִקְטִיר	הָעֹלָה	עָלֶיהָ	וְעָרַף	בְּבֹקֶר	בְּבֹקֶר			
मेलबलियों-की	चर्बी	उस-पर	और-जलाए	होमबलि	उस-पर	और-सजाए	सुबह-में	सुबह-में			
H8002	H2459						H1242	H1242			

किन्तु वेदी की आग वेदी में जलती रहनी चाहिए। इसे बुझने नहीं देना चाहिए। याजक को हर सुबह वेदी पर लकड़ी जलानी चाहिए। उसे वेदी पर लकड़ी रखनी चाहिए। उसे मेलबलि की चर्बी जलानी चाहिए।

ס	תִּכְבְּהָ:	לֹא	הַמִּזְבֵּחַ	עַל-	תִּזְקַד	תִּמְוֵד	אֵשׁ	13
—	बुझें	नहीं	वेदी	पर	जलती-रहे	सदा	आग	
	H3518	H3808	H4196		H3344	H8548	H0784	

वेदी पर आग लगातार जलती रहनी चाहिए। यह बुझनी नहीं चाहिए।

הַמִּזְבֵּחַ:	פָּנָיו	אֶל-	יְהוָה	לְפָנָיו	אֶהְרֹן	בְּנֵי-	אֹתָהּ	הַקָּרֹב	הַמִּנְחָה	תּוֹרַת	וְזֹאת	14
वेदी-के	सामने	पर	यहोवा-के	सामने	हारून-के	पुत्र	उसे	चढ़ाओ	अन्नबलि-की	व्यवस्था	और-यह	
H4196	H6440	H0413	H3068	H6440	H0175		H0853	H7126	H4503	H8451	H2063	

“अन्नबलि का यह नियम है कि: हारून के पुत्रों को वेदी के समने यहोवा के लिए इसे लाना चाहिए।

אֲשֶׁר	הַלֶּבֶנָה	כָּל-	וְאֵת	וּמִשְׁמֶנֶהָ	הַמִּנְחָה	מִסֵּלֶת	בְּקִמְצוֹ	מִזְמֵנוֹ	וְהָרִים	15
जो	लोबान	सब	और-को	और-तेल-उसके-से	अन्नबलि-के	मैदे-से	मुट्टी-अपनी-में	उस-में-से	और-उठाए	
	H3828	H3605	H0853	H8081	H4503	H5560	H7062			
			לִיהוָה:	אֲזַכְּרָתָהּ	נִיחֹחַ	רִיחַ	הַמִּזְבֵּחַ	וְהִקְטִיר	הַמִּנְחָה	עַל-
			यहोवा-को	स्मरण-अंश-उसका	सुखदायक	सुगंध	वेदी	और-जलाए	अन्नबलि	पर
			H3068	H0234	H5207	H7381	H4196		H4503	

याजक को अन्नबलि में से मुट्टी भर उत्तम आटा लेना चाहिए। तेल और लोबान अन्नबलि पर अवश्य होना चाहिए। याजक को अन्नबलि को वेदी पर जलाना चाहिए। यह यहोवा को एक सुगन्धित और स्मृति भेंट होगी।

בְּחֶזֶר	קֹדֶשׁ	בְּמִקְוֹם	תֹּאכְלֶהָ	מִצֹּת	וּבָנָיו	אֶהְרֹן	יֹאכְלוּ	מִזְמֵנָהּ	וְהַנּוֹתְרָתָהּ	16
आँगन-में	पवित्र	स्थान-में	खाई-जाए	अखमीरी	और-पुत्रों-उसके	हारून	खाए	उस-में-से	और-बची-हुई	
	H6918	H4725	H0398	H4682		H0175	H0398		H3498	

יֹאכְלוּהָ:	מוֹעֵד	אֶהְלֵ
खाएं-उसे	मिलाप-के	तम्बू
H0398	H4150	H0168

“हारून और उसके पुत्रों को बची हुई अन्नबलि को खाना चाहिए। अन्नबलि एक प्रकार की अखमीरी रोटी की भेंट है। याजक को इस रोटी को पवित्र स्थान में खाना चाहिए। उन्हें मिलापवाले तम्बू के आँगन में अन्नबलि खानी चाहिए।

הוּא	קֹדֶשִׁים	קֹדֶשׁ	מִאֲשֵׁי	אֹתָהּ	נָתַתִּי	חֶלְקֶם	חֲמִין	תֹּאפְהָ	לֹא	17
यह	पवित्रों-का	पवित्र	अग्निबलियों-मेरी-से	उसे	दिया-मैंने	भाग-उनका	खमीरी	पकाई-जाए	नहीं	
H1931	H6944	H6944	H0801	H0853	H5414			H0644	H3808	

יְכַאֲשֶׁם:	כַּחֲטָאת
और-जैसे-दोषबलि	जैसे-पापबलि
H0817	

अन्नबलि खमीर के साथ नहीं पकाई जानी चाहिए। मुझको (यहोवा को) आग द्वारा दी जाने वाली बलि में से उनके (याजकों के) भाग के रूप में मैंने इसे दिया है। यह पापबलि तथा दोषबलि के समान अत्यन्त पवित्र है।

18	כָּל- सब	זָכַר नर	בְּבָנָי पुत्रों-में	אֶהְרֹן हारून-के	וְאֶבְרָהָם खाए-उसे	חֻק- विधि	עוֹלָם सदा	לְדֹרֹתֵיכֶם पीढ़ियों-तुम्हारी-के-लिए	מִאֲשֵׁי अग्निबलियों-से	יְהוָה यहोवा-की
	H3605	H2145		H0175	H0398	H2706	H5769	H1755	H0801	H3068

כָּל- सब	אֲשֶׁר- जो	יָנַע छुए	בָּהֶם उन-में	יִקְרָשׁ: पवित्र-हो	פ —
H3605		H5060		H6942	

“हारून की सन्तानों में से हर एक लड़का आग द्वारा यहोवा को चड़ाई गई भेंट में से खा सकता है। यह तुम्हारी पीढ़ियों का सदा के लिए नियम है। इन बलियों का स्पर्श उन व्यक्तियों को पवित्र करता है।”

19	וַיְדַבֵּר और-बोला	יְהוָה यहोवा	אֶל- से	מֹשֶׁה मूसा	לְאֹמַר: कहते-हुए
	H1696	H3068	H0413	H4872	H0559

यहोवा ने मूसा से कहा,

20	זֶה यह	קָרְבָּן भेंट	אֶהְרֹן हारून	וּבָנָיו और-पुत्रों-उसके	אֲשֶׁר- जो	יִקְרִיבוּ चढ़ाएं	לְיְהוָה यहोवा-को	בְּיוֹם दिन-में	הַמִּשְׁחָה अभिषेक-होने-पर	אֹתוֹ उसे
	H2088		H0175			H7126	H3068	H3117	H4886	H0853

עֲשִׂיֹת दसवाँ	הָאֵפָה एपाह-का	סֵלַת मैदा	מִנְחָה अन्नबलि	תָּמִיד सदा	מִחֲצִיתָהּ आधा-उसका	בִּבְקָר सुबह-में	וּמִחֲצִיתָהּ और-आधा-उसका	בְּעֶרְבֹ: शाम-को
H6224	H0374	H5560	H4503	H8548	H4276	H1242	H4276	H6153

“हारून तथा उसके पुत्रों को जो बलि यहोवा को लानी चाहिए, वह यह है। उन्हें यह उस दिन करना चाहिए जिस दिन हारून का अभिषेक हुआ है। उन्हें सदा दो क्वार्ट उत्तम महीन आटा अन्नबलि के लिए लेना चाहिए। उन्हें इसका आधा प्रातः काल तथा आधा सन्ध्या काल में लाना चाहिए।

21	עַל- पर	מִחֲבֹת तवे	בַשֶּׁמֶן तेल-में	תַּעֲשֶׂה बनाई-जाए	מֵרֵחַ गंधी-हुई	הַבִּיאָה ला-उसे	תַּפְּיִלִּים रोटियाँ	מִנְחָת अन्नबलि	פְּתִים टुकड़ों-की	תְּקָרִיב चढ़ा	רֵיחַ- सुगंध
		H4227	H8081		H7246	H0935	H8601	H4503		H7126	H7381

גִּיחָח सुखदायक	לְיְהוָה: यहोवा-को
H5207	H3068

उत्तम महीन आटे में तेल मिलाना चाहिए और उसे कड़ाही में भूनना चाहिए। जब यह भून जाए तब इसे अन्दर लाना चाहिए। तुम्हें अन्नबलि का चूरमा बना लेना चाहिए। इस की सुगन्ध यहोवा को प्रसन्न करेगी।

22	וְהַכֹּהֵן और-याजक	הַמִּשְׁחָח अभिषिक्त	תַּחֲתָיו उसके-बाद	מִבְּנָיו पुत्रों-उसके-में-से	יַעֲשֶׂה करे	אֵתָהּ उसे	חֻק- विधि	עוֹלָם सदा	לְיְהוָה यहोवा-को	כָּלִיל पूरा
	H3548	H4899	H8478			H0853	H2706	H5769	H3068	H3632

תְּקַטֵּר: जलाई-जाए

“हारून के वंश में से वह याजक जिसका हारून के स्थान पर अभिषेक हो, यहोवा को यह अन्नबलि चढ़ाए। यह नियम सदा के लिए है। यहोवा के लिए अन्नबलि पूरी तरह जलाई जानी चाहिए।

23	וְכֹל- और-सब	מִנְחָת अन्नबलि	כֹּהֵן याजक-की	כָּלִיל पूरी	תְּהִי हो	לֹא नहीं	תֵּאָכַל: खाई-जाए	פ —
	H3605	H4503	H3548	H3632	H1961	H3808	H0398	

याजक की हर एक अन्नबलि पूरी तरह जलाई जानी चाहिए। इस खाना नहीं चाहिए।”

24	וַיְדַבֵּר और-बोला	יְהוָה यहोवा	אֶל- से	מֹשֶׁה मूसा	לְאֹמַר: कहते-हुए
	H1696	H3068	H0413	H4872	H0559

यहोवा ने मूसा से कहा,

25 דָּבַר אֶל-אֶהֱרֹן וְאֶל-בְּנֵי לֵאמֹר זֹאת תּוֹרַת הַחֹטֵאת בְּמִקּוֹם אֲשֶׁר בֹּל

जहाँ और-से हारून से बोल

H0413 H0175 H0413 H1696

תִּשְׁחֹט תִּשְׁחֹט הָעֹלָה תִּשְׁחֹט הַחֹטֵאת לִפְנֵי יְהוָה קֹדֶשׁ קֹדֶשִׁים הוּא:

वध-की-जाए वध-की-जाए होमबलि वध-की-जाए पापबलि सामने यहोवा-के पवित्र पवित्र पवित्रों-का यह

H1931 H6944 H6944 H3068 H6440

“हारून और उसके पुत्रों से कहो: पापबलि के लिए यह नियम है कि पापबलि को भी वहीं मारा जाना चाहिए जहाँ यहोवा के सामने होमबलि को मार जाता है। यह अत्यन्त पवित्र है।

26 הַכֹּהֵן יֹאכְלֶנָה אֶת-הַחֹטֵאת הַמִּזְבֵּחַ אֶת-בְּמִקּוֹם קֹדֶשׁ תֹּאכְלֶנָה בְּחֹצֵר אֶהֱלֶנָּה מוֹעֵד:

याजक खाए-उसे उसे पवित्र-हो खाए-उसे पवित्र स्थान-में खाई-जाए आँगन-में तम्बू मिलाप-के

H4150 H0168 H0398 H6918 H4725 H0398 H0853 H2398 H3548

उस याजक को इसे खाना चाहिए, जो पापबलि चढ़ाता है। उसे पवित्र स्थान पर मिलापवाले तम्बू के आँगन में इसे खाना चाहिए।

27 כָּל-אֲשֶׁר-יִנֹּעַ בְּבִשְׂרָה יִקְדָּשׁ וְאֲשֶׁר יִזָּח מִדָּמָה עַל-הַבְּגָדִים אֲשֶׁר

सब जो छुए मांस-उसके-में पवित्र-हो और-जो छिड़के लहू-उसके-से वस्त्र जिस-पर

H1818 H6942 H1320 H5060 H3605

יִזָּח עֲלֵיהָ תִּכְבֵּס בְּמִקּוֹם קֹדֶשׁ:

छिड़के उस-पर धोए स्थान-में पवित्र

H6918 H4725 H3526

पापबलि के मांस का स्पर्श किसी भी व्यक्ति को पवित्र करता है। “यदि छिड़का हुआ खून किसी के वस्त्रों पर पड़ता है तो उन वस्त्रों को धो दिया जाना चाहिए। तुम्हें उन वस्त्रों को एक निश्चित पवित्र स्थान में धोना चाहिए।

28 וְכָל-יְהוָה מִיְדֵי-אֲשֶׁר תִּבְשַׁל-בּוֹ יִשְׁבֵּר וְאִם-בְּכִלֵי נְחֹשֶׁת בְּשָׂלָה

और-बर्तन मिट्टी-का पकाई-जाए उस-में तोड़ा-जाए और-यदि बर्तन-में तांबे-के पकाई-जाए

H1310 H3627 H7665 H1310 H2789 H3627

וּמִרְקָא וְשִׁטְףָּ וּבְמַיִם:

और-माँजा-जाए और-धोया-जाए पानी-में

H4325 H7857 H4838

यदि पापबलि किसी मिट्टी के बर्तन में उबाली जाए तो उस बर्तन को फोड़ देना चाहिए। यदि पापबलि को काँसे के बर्तन में उबाला जाय तो बर्तन को माँजा जाए और पानी में उबाला जाय तो बर्तन को माँजा जाए और पानी में धोया जाए।

29 כָּל-זָכָר בְּכַהֲנִים יֹאכְל אֶת-קֹדֶשׁ קֹדֶשִׁים הוּא:

सब याजकों-में खाए उसे पवित्र पवित्रों-का यह

H1931 H6944 H6944 H0853 H0398 H3548 H2145 H3605

“परिवार का प्रत्येक पुरुष सदस्य याजक, पापबलि को खा सकता है। यह अत्यन्त पवित्र है।

30 וְכָל-חֹטֵאת אֲשֶׁר יֹבֵא לָא לְכַפֵּר בְּקֹדֶשׁ לֹא

और-सब लाया-जाए लहू-उसके-से तम्बू में तम्बू प्रायश्चित्त-करने पवित्र-में नहीं

H3605 H0935 H1818 H0413 H0168 H4150 H6944 H3808

תֹּאכְלֶנָה בְּאֵשׁ תִּשְׂרֹף:

खाई-जाए आग-में जलाई-जाए

H8313 H0784 H0398

किन्तु यदि पापबलि का खून पवित्र स्थान को शुद्ध करे के लिए मिलापवाले तम्बू में ले जाया गया हो तो पापबलि को आग में जला देना चाहिए। याजक उस पापबलि को नहीं खा सकते।”